



20 JAN 1978

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 14] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 13, 1978/पौष 23, 1899

No. 14] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 13, 1978/PAUSA 23, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

प्रादेश

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 1978

का०आ० 15(अ)/18ए/आई डी आर ए/77 :—भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के प्रादेश सं० का०आ० 22(प्रसा०)/18 ए/आई डी आर ए/78, तारीख 15 जनवरी, 1973 द्वारा (भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के प्रादेश सं० का०आ० 794 (प्रसा०)/18 ए/आई डी आर ए/73, तारीख 27 दिसम्बर, 1973 द्वारा यथा संशोधित) श्री जानकी शुगर मिल्स एण्ड कम्पनी, दोईवाला, जिला देहरादून (उत्तर प्रदेश) नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध, उद्योग (विकास और नियन्त्रण) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 क क की उपधारा (1) के अधीन, 14 जनवरी, 1978 तक (जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है) को पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था और उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का दो वर्ष की और अवधि के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रबन्धन के अधीन बना रहना चाहिए,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 18 क की उपधारा (2) के परन्तुक के साथ पठित धारा 18 क क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश करती है कि ऊपर उल्लिखित आदेश 14 जनवरी, 1980 तक (जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है) के दो वर्षों की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[सं० का० 4/11/72-सी०यू०सी०]
वी०प्रार०प्रार० आयंगर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 13th January, 1978

S.O. 15(E)/18AA/IDRA/78.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 22(E)/18AA/IDRA/73, dated the 15th January, 1973 (as amended by the Order of the Government of India, in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 794(E)/18AA/IDRA/73, dated the 27th December, 1973), the management of the industrial undertaking known as Shri Janki Sugar Mills and Company, Doiwala, District Dehradun (Uttar Pradesh) was taken over under sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of five years upto and inclusive of 14th January, 1978 and the Uttar Pradesh State Sugar Corporation Limited was authorised to take over the management of the said industrial undertaking;

And whereas the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the said industrial undertaking should continue under the management of the Uttar Pradesh State Sugar Corporation Limited for a further period of two years;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA read with the proviso to sub-section (2) of section 18A of the said Act, the Central Government hereby directs that the Order mentioned above shall continue to have effect for a further period of two years upto and inclusive of 14th January, 1980.

[File No. 4/11/72-CUC]

B. R. R. IYENGAR, It. Secy.